



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72]
No. 72]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 1979/फाल्गुन 25, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 1979/PHALGUNA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

प्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1979

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 237(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले बिस्किटों को, उन पर उद्योगीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना इस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[114/79/का० सं० 334/3/79-टी० आर० यू०]

जी० के० विल्ले, धवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th March, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts biscuits falling under Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises 1308 G.I./78

and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. ad valorem.

[114/79/F. No. 334/3/79-TRU]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सा० का० नि० 238(अ):—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 9 के अन्तर्गत आने वाले डीजल तेल को जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है, उस पर उद्योगीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जिसका पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर एक सौ पचपन रुपये बहतर पैसे प्रति किलोमीटर से अधिक है।

[115/79/का० सं० 334/3/79-टी आर यू]

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Diesel Oil, not otherwise specified, falling under Item No. 9 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one hundred fifty-five rupees and seventy-two paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.

[115/79/F. No. 334/3/79-TRU]

सा० का० नि० 239(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), या राजस्व और वेंकिंग विभाग की प्रत्येक

प्रधिसूचना, जो इससे उपायय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं०	प्रधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	276/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967	उक्त प्रधिसूचना में,— (1) प्रथम परन्तुक के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— “(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6, 7, 8 और 9 के अन्तर्गत आने वाले माल की दशा में पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर 103.43 रुपए प्रति किलोलिटर” और (2) द्वितीय परन्तुक का शेष किया जाएगा।
2.	133/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जून, 1968	उक्त प्रधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे अर्थात्:— “(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की, यथास्थिति, मद सं० 8 या मद सं० 9 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के पचास प्रतिशत से, पैरा 2 और 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए; (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट समस्त उत्पाद-शुल्क से, पैरा 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए”।
3.	60/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त प्रधिसूचना में,— (i) क्रम सं० 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का शेष किया जाएगा। (ii) क्रम सं० 2 से 5 क्रमशः क्रम सं० 1 से 4 के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी।

[116/79-फा० सं० 334/3/79-टी आर यू]

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or in the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	276/67-Central Excises, dated the 21st December, 1967.	In the said notification,— (i) for clause (a) of the first proviso, the following clause shall be substituted, namely :— “(a) Rs. 103.43 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer in the case of goods falling under Items Nos. 6, 7, 8 and 9 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)”; and (ii) the second proviso shall be omitted.
2.	133 /68-Central Excises, dated the 22nd June, 1968.	In the said notification, in the first paragraph, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :— “(a) from fifty per cent. of the duty of excise leviable thereon under Item No. 8 or Item No. 9, as the case may be, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), subject to the conditions specified in paragraphs 2 and 4; (b) from the whole of the duty of excise referred to in clause (a), subject to the conditions specified in paragraphs 2, 3 and 4.”.
3.	60/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976	In the said notification,— (i) S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted; (ii) S. Nos. 2 to 5 shall be renumbered respectively as S. Nos. 1 to 4.

[116/79/F. No. 334/3/79-TRU]

सा० फा० वि० 240(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 9 के अन्तर्गत आने वाले खनिज तेल को जिसका उत्पादन असम राज्य या बिहार राज्य में किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर एक सौ सत्ताईस रुपए दस पैसे प्रति किलोलिटर से अधिक है:

परन्तु यह तब जब कि—

(क) उक्त खनिज तेल का प्रचलन ताप एक सौ पचास डिग्री फार्नेहाइट थर्मामीटर पर या उससे अधिक हो; और

(ख) उक्त खनिज तेल की ज्वाला-ऊँचाई दस मिलीमीटर से कम हो;

परन्तु यह और कि—

(क) उक्त खनिज तेल का बहाव बिन्दु जिसका पेट्रोसियम संस्थापन, लखन द्वारा विहित आई० टी० 15/60 पद्धति द्वारा अनुधारण किया जाए, पचास डिग्री फार्नेहाइट थर्मामीटर पर या उससे अधिक हो, जिसकी विसृजिता एक सौ डिग्री फार्नेहाइट

थर्मामीटर पर रेडवुड 1 डिस्कोमीटर द्वारा पैंतीस सेकण्ड से अधिक हो और जिसमें बिटुमेनी पदार्थ वजन के अनुसार 0.75 प्रतिशत से अधिक हो; या

(ख) जिसकी बिस्कासिता एक सौ डिग्री फार्नेहाइट थर्मामीटर पर रेडवुड 1 डिस्कोमीटर द्वारा पचास सेकण्ड से अधिक हो और जिसमें बिटुमेनी पदार्थ वजन के अनुसार दो प्रतिशत से अधिक हो।

[117/79/फा सं० 334/3/79-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 240(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts any mineral oil, falling under Item No. 9 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in the State of Assam or the State of Bihar from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one hundred twenty-seven rupees and ten paise per kilolitre at fifteen degrees of Centrigade thermometer :

Provided that the said mineral oil —

- (a) has its flashing point at or above one hundred and fifty degrees of Fahrenheit's thermometer; and
- (b) has a flame height of less than ten millimeters :

Provided further that the said mineral oil —

- (a) has pour point as determined by the method I.P. 15/60 prescribed by the Institute of Petroleum, London, at or above fifty degrees of Fahrenheit's thermometer, has a viscosity of over thirty-five seconds by Redwood I Viscometer at one hundred degrees of Fahrenheit's thermometer, and contains more than 0.75 per cent. by weight of any bituminous substance; or
- (b) has a viscosity of over fifty seconds by Redwood I Viscometer at one hundred degrees of Fahrenheit's thermometer, and contains more than two per cent. by weight of any bituminous substance.

[117/79/F. No. 334/3/79-TRU]
T. R. RUSTAGI, Under Secy.

सा० का० नि० 241(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की सब सं० 14 चब के अन्तर्गत आने वाले टूथपेस्ट (जिसके अन्तर्गत डेन्टल क्रिम भी है) को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना बीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[118/79 फा० सं० 334/3/79-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tooth-paste (including dental cream) falling under Item No. 14FF of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty per cent. ad valorem.

[118/79/F. No. 334/3/79-TRU]

सा० का० नि० 242(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की सब सं० 15 की उपसम (1) के अन्तर्गत आने वाले बरेलू और लाठी साबुन को, उस पर उद्ग्रहणीय

उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[119/79/फा० सं० 334/3/79-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 242(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule 1 of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts soap, household and laundry, falling under sub-item (1) of Item No. 15 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of fifteen per cent. ad valorem.

[119/79/F. No. 334/3/79-TRU]

सा० का० नि० 243(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 53/79 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "जितना पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है" शब्दों के स्थान पर "जितना साढ़े बारह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है" शब्द रखे जाएंगे।

[120/79/फा० सं० 334/3/79-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, for the words "as is in excess of fifteen per cent. ad valorem", the words "as is in excess of twelve and a half per cent. ad valorem" shall be substituted.

[120/79/F. No. 334/3/79-TRU]

सा० का० नि० 244(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, जो इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की नस्थाना प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	94/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना में, तारीख 26 मई, 1967	परन्तु के खण्ड (ii) में, "10.00" श्रृंखला के स्थान पर "15.00" श्रृंखला रखे जाएंगे।
2.	171/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना में, तारीख 24 जुलाई, 1967	"10.00" श्रृंखला के स्थान पर "15.00" श्रृंखला रखे जाएंगे।

[121/79/फा० सं० 334/3/79-टी० प्रार० यू०]

जी० के० पिल्ले, अवसर सचिव

GSR. 244 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

THE TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	94/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967.	In the said notification, in clause (ii) of the proviso, for the figures "10.00", the figures "15.00" shall be substituted.
2.	171/67-Central Excises, dated the 24th July, 1967.	In the said notification, for the figures "10.00", the figures "15.00" shall be substituted.

[(121/79/F. No. 334/3/79-TRU)]
G. K. PILLAI, Under Secy.

सांकां.निं 245(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 154/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 3 जून, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, स्तम्भ (3) में आने वाले '9.20' अक्षरों के स्थान पर '7.20' अक्षर रखे जायेंगे।

[(122/79/फा० सं० 334/3/79-टी०आर०यू०)]
टी० आर० रुस्तगी, प्रवर सचिव

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 154/75-Central Excises, dated the 3rd June, 1975, namely :—

In the said notification, in the Table, for the figures "9.20" occurring in column (3), the figures "7.20" shall be substituted.

[(122/79/F. No. 334/3/79-TRU)]
T. R. RUSTAGI, Under Secy.

सां.कां.निं 246(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 100/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 71 और 72 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[(123/79/फा० सं० 334/3/79-टी०आर०यू०)]

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry

of Finance (Department of Revenue) No. 100/79-Central Excises, dated 1st March, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification, S. Nos. 71 and 72 and the entries relating thereto shall be omitted.

[(123/79/F. No. 334/3/79-TRU)]

सांकां.निं 247 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 47 के अंतर्गत आने वाले ताले, सभी प्रकार के और उनकी चाबियों को, उन पर उद्घाटनीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ग्राह्य प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[(124/79/फा० सं० 334/3/79-टी०आर०यू०)]

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts locks, all sorts, and keys thereof, falling under Item No. 47 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent. ad valorem.

[(123/79/F. No. 334/3/79-TRU)]

सांकां.निं 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 59 के अंतर्गत आने वाले दूधबुशों को, उन पर उद्घाटनीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ग्राह्य प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[(125/79/फा० सं० 334/3/79-टी०आर०यू०)]

G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tooth brushes, falling under Item No. 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent. ad valorem.

[(125/79/F. No. 334/3/79-TRU)]

सांकां.निं 249(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1क के अंतर्गत आने वाले कन्दकेशनरी, कोको बूथ और चाकलेट को, उन पर उद्घाटनीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना दस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[(126/79/फा० सं० 334/3/79-टी०आर०यू०)]

जी० के० गिल्ले, प्रवर सचिव

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts confectionery, cocoa powder and chocolates, falling under Item No. 1A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. ad valorem.

[(126/79-CE/F. No. 334/3/79-TRU)]

G. K. PILLAI, Under Secy.